

प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी जयपुर-अजमेर

दिनांक: 30.08.2026

समय : 01:00 पी.एम.

0000

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से नशामुक्त भारत अभियान में बढ़चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उन लोगों की सराहना की जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। उन्होंने नशामुक्त भारत के लिए पॉवरफुल स्लोगन बनाने, युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने जिसमें ड्रग फ्री लाईफ का संदेश हो और विधार्थियों और थियेटर ग्रुप से ऐसे शॉर्ट प्ले बनाने की अपील की, जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी सुझाया गया हो।

0000

प्रधानमंत्री ने अगस्त के महीने में राष्ट्र प्रेम की बयार का जिक्र करते हुए कहा कि यह समय 'भारत छोड़ो आंदोलन' की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका की स्मृति दिवस स्वतंत्रता दिवस' राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और 'हर घर तिरंगा अभियान' भावना से देशवासियों को गर्व से भर देता है। उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' के डेढ़-सौ वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। श्री मोदी ने 'सूर्यपथ तिरंगा' के जरिए तिरंगे की अनोखी यात्रा को गौरवशाली पल बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।

0000

प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना' से लाभान्वित महिलाओं की बात करते हुए कहा कि आज देश में 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को न केवल ताकत मिल रही है बल्कि वे देश की आर्थिक समृद्धि में एक मजबूत स्तम्भ बनकर उभर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का नाम है मिशन शक्तिसैट और इसके माध्यम से एक सौ आठ देशों की 12 हजार छात्राओं को उपग्रह प्रौद्योगिक सीखने और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में स्वच्छता को संकल्प बनाने, कृषि के क्षेत्र में नवाचारों को महत्व देने के साथ ही अपने वोकल से लोकल के आग्रह को एक बार फिर दोहराया।

0000

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित यह कार्यक्रम ब्रिक्स के सहयोग से राष्ट्रीय खेल दिवस का विशेष संस्करण था। डॉ. मांडविया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि साइक्लिंग व्यायाम का एक उत्कृष्ट रूप है। डॉ. मांडविया ने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए रोजाना कम से कम एक घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया।

0000

प्रदेश में मानसून की गतिविधियां फिलहाल थम गई हैं। बारिश का दौर रुकने से कल अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहा और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं अलवर, टोंक, जोधपुर, हनुमानगढ़ और झुंझुनूं में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले महीने मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। विभाग ने 2 सितंबर को 10 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगले तीन दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के बाद सितंबर की शुरुआत में बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार हैं।

0000